

Blamo dñece māt̄. O m̄tho. ou t̄t̄. Sexago feis. In diu sexta. Die quod decimo
executio māt̄. presencia dñp magistri flaminiori Gudeli. Id est. caris vragani dñal
flaminis canonice iste canonice p̄. testū. Dix whelclus archip̄b̄r eccl̄e maioris emone
suo nomine nōne eccl̄e canonice iquo nōne māl. potuit. prefatis fuit etiam
iustis testib̄ nomine dñi eccl̄e canonice qd̄ alaricis s̄f. urbūz yam p̄terea c̄fuerit ut ei
h̄is ad soluendū ficiū ē una petia ut arat. iacentis ad uadū squattarellū. Cui coh̄r
ab una pte mālaus d̄. H. ab alia p̄petui. ab alia ahorū. ab alia via si libiq; die
fue obit. p̄duis agoḡ r̄plus q̄ s̄fuerat et uiocata. dñr et p̄t. septē s̄ue plus ul
m̄n. Et marito dictus dñs archip̄b̄r nomine dñi canonice eccl̄e renocauit et reuocauit
iustitiam frām in tēm alaricū dñcide tēm tām et dñi eccl̄e. canonice et ei optio
ur e dñm auferendo et eligendo et reuocando in tēm eccl̄ay canoniam dñm tām ppter
cessatione. Et si sc̄m uis. In canonica maiori emone. magis

Gloria dominus noster fac patrem tuum in hac cuncta regna. Amen.
Markio 3 (98a)

Morbio 3 (98a)

Morbio 3 (986)



anno 1775. ab hoc dicitur. seropki.

त्रिपुरा द्वारा अपनी जाति के लिए उपर्युक्त विधि का अनुसार विवाह करवाया गया। इसके बाद विवाहित दोनों व्यक्ति ने अपनी जाति के अन्य व्यक्तियों के साथ विवाह करने की विमत दी गई। इसके बाद विवाहित दोनों व्यक्ति ने अपनी जाति के अन्य व्यक्तियों के साथ विवाह करने की विमत दी गई। इसके बाद विवाहित दोनों व्यक्ति ने अपनी जाति के अन्य व्यक्तियों के साथ विवाह करने की विमत दी गई।

त्रिपुरा, अल्पसंख्यक जाति: जाति के लिए उपर्युक्त विवाह का अनुसार विवाह करवाया गया।
(१४८) ३०१७०८

त्रिपुरा, अल्पसंख्यक जाति: जाति के लिए उपर्युक्त विवाह का अनुसार विवाह करवाया गया। इसके बाद विवाहित दोनों व्यक्ति ने अपनी जाति के अन्य व्यक्तियों के साथ विवाह करने की विमत दी गई। इसके बाद विवाहित दोनों व्यक्ति ने अपनी जाति के अन्य व्यक्तियों के साथ विवाह करने की विमत दी गई।

(१४८) ३०१७०८

त्रिपुरा, अल्पसंख्यक जाति: जाति के लिए उपर्युक्त विवाह का अनुसार विवाह करवाया गया।

anno unice māri. Octavo. duodecim. Sexago. Etio. Id dicit sexta. Die octodecimo
exulte māris. presentia dñorū magis flaminis būtū. ab eis vī pagani dī mal
flaminis canōice ista canōice pē. testū. Dñs iheredellus archip̄b̄r eccl̄e mārii emone
suo vīo vīo eccl̄e canōice quo h̄c māl̄ potuit. vī prestatas fuit etiam
iheredellus testib⁹ vīo dñe eccl̄e canōice qđ alat̄is s̄i mōbi⁹. qđ am̄ fletere c̄fletuit ul̄ ei
h̄c ad solūndā ficiū vī una petia t̄re arat̄. iacentis ad uānū squarrellū. Cui coh̄r
ab una pīc mālaus d̄. s̄i. ab alia pīcū. ab alia coh̄r. ab alia via si libiḡ ab
fīc c̄f. p̄duos vīos vī plus qđ ḡfuerat ēt vīcētā. dñr̄ c̄t̄ p̄t̄. septē fīc plus ul̄
mīn. Et mārī dīctus dñs archip̄b̄r vīo dñe canōice eccl̄e renocuit vī reuocabat̄
vīfūtū fām vī qđm alat̄i dīcētē tēlām tām et dñe eccl̄e vī canōice vī ci aptiō
urēt̄ dñm auferendo vī eligendo vī reuocando vī tēlām eccl̄e vī canōicam dīm tām ppter
cessationē f̄ti sc̄m uo. In canōica mārii emone. magis

Gloria altorum 300. Regis et eccl. facit patet. ut fieri habeat certum Re. scripti.
Marklio 3 (98a)

Morbio 3 (98a)

Morbio 3 (98 b)

